

work of this laboratory will be directed to seismic problems of dam construction]

विश्वविद्यालयों के अध्यापकों का स्थानान्तरण

७३०. श्री भगवत नारायण भागवत :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अध्यापकों और विद्यार्थियों को एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में स्थानान्तरित करने का कोई प्रयोग किया है और यदि हाँ, तो यह प्रयोग कहा कहा किया गया और उसका क्या परिणाम निकला ?

†[TRANSFER OF TEACHERS IN UNIVERSITIES

760 SHRI B N BHARGAVA: Will the Minister of EDUCATION be pleased to state whether the University Grants Commission has made an experiment transferring teachers and students from one university to another, and if so, where this experiment was conducted and what was the result thereof?]

शिक्षा मंत्री (डा० कालू लाल श्रीमाली)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस प्रकार का कोई प्रयोग नहीं किया है ।

†[THE MINISTER OF EDUCATION (DR. K L SHRIMALI) The University Grants Commission have not made any such experiment]

दृश्य तथा श्रव्य सामग्री के किट

७६१. श्री भगवत नारायण भागवत :

क्या शिक्षा मंत्री वर्तमान वर्ष में स्कूलों में उपयोग के लिये तैयार किये जाने वाले दृश्य तथा श्रव्य सामग्री की किटों का ज़्यादा सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

†[KITS OF AUDIO-VISUAL MATERIAL

761 SHRI B N BHARGAVA Will the Minister of EDUCATION be pleased to lay on the Table of the House the details of the kits of audio-visual material, which are to be prepared during the current year for use in schools?]

शिक्षा मंत्री (डा० कालू लाल श्रीमाली)

वर्तमान वर्ष के दौरान स्कूलों में प्रयोग के लिये निम्नांकित विषयों के सम्बन्ध में अध्ययन—“किट” (Kit) बनाने या एकत्र करने का विचार है —

(१) उद्योग, कृषि तथा भारत में सामान्य विकास के विभिन्न अन्य पहलू ।

(२) किसी एक राज्य में, जीवन के विभिन्न पहलू ।

(३) सामान्य विज्ञान के पहलुओं (भौतिकी) में से एक ।

†[THE MINISTER OF EDUCATION (DR K L SHRIMALI) During the current year, it is proposed to prepare or assemble study kits for use in schools regarding the following —

(i) Industries, Agriculture and various other aspects of development in general in India.

(ii) Various aspects of life in one of the States

(iii) One of the aspects (Physics) of General Science]

अष्टांग संग्रह का हिन्दी अनुवाद

७६२. श्री भगवत नारायण भागवत :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार श्री अत्रिदेव विद्यालंकार द्वारा अष्टांग संग्रह का जो हिन्दी अनुवाद करवा रही है वह कब तक प्रकाशित होगा ?